बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2021-22 / 60 9 र - 9 १

दिनांक 18/10/ रहर)

<u>ई</u>— निविदा—सूचना सं0 61/2021—22

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 0) कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपन्न में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP. raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा की कुल लागत :—80.00 लाख

क्रमांक / निर्माण / 2021—22 / **609 २-9 ५** प्रतिलिप :— आयुक्त नगर निगम, बीकानेर दिनांक18) १ २०२)

1. श्रीमान् निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन कम से कम स्पेस में राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, एक मुख्य राज्य स्तरी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।

नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :— 0151—2226906, फोन :— 0151—2226902, 0151—2226905 E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

अमाक / निर्माण / 2021 - 22 / 609 र - 9 Y

दिनांक 18) १० २०२)

ई- निविदा-सूचना सं0 61/2021-22

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", ए श्रेणी में पजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपन्न में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा कार्य .	2	बीकानेर नगर निगम के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में (आर०यू०आई०डी०पी०, अन्य विभागों की सड़क छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत / पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ०आर०सी० कार्य) 40.00 लाख बीकानेर नगर निगम के विधानसभा क्षेत्र में (अमृत योजना, आर०यू०आई०डी०पी०, अन्य विभागों की सड़क छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत / पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ०आर०सी० कार्य)
ेदिदा की कल लागत		40.00 예명 /
मेविदा की कुल लागत - मलाईन मिविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	80.00 लाख 20 10 २०२) 09.30 बजे से २९ 10 २०२) 18:00 बजे तक
ालाईन निविदा फार्म जमा करानें की शेख	÷	२० 10 २०२१ 09.30 बजे से २९ 10 रे०री 18:00 बजे तक
ालाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	ा । । २०२१ को १७.०० बजे

इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <u>http://eproc.rajasthan.gov.in</u> पर

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर दिनांक <u>१९</u>/10/२०२)

अमांक/निर्माण/2021-22/609२-94

1. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम, बीकानेर।

2. सुरक्षित पत्रावली।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :— 0151—2226906, फोन :— 0151—2226902, 0151—2226905 E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/निर्माण/2021-22/609 र-94

दिनांक 18/)०/ २०२/

ागर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में प्रजीकृत सर्वेदकों एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपन्न में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आगंडित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website www.SPPP. raj.nic.in से व

विला	पर देखा जा सकता है।	usite www.SPPP.	raj.nic.in 对 ā
	कार्य / पैकेज का नाम		
diam'r	1	अनुमानित लागत	कार्य की अवधि
3 3 1 14	बीकानेर नगर निगम के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में (आर0यू0आई0डी0पी0,	(लाखों में)	7,000 -
		40.00	12 माह
	मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ०आर०सी० कार्य)		12 110
diana.	बीकानेर नगर निगम के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में (अमृत योजना,		
	अगान प्राप्त के अवीं विधानसभा क्षेत्र में (अमत गोजना	40.00	
	आर्वयूवआईवडीवपीव, अन्य विभागों की सड़क छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर	40.00	12 माह
	संदेक गरम्मत / पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ०आर०सी० कार्य)		
	(राजर प्राप्त (१०आर०सा० काय)		
13	िया प्रपन्नों को तेन मार्टन १५५ ए		

ोविटा प्रपन्नों को वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले क िद्या को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।

्रिक्टा स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत में रिजस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रिजस्टर्ड एवं अन्य विभागों के ऐ एवं विभास में पंजीकृत संवेदक निविदा में भाग ले सकते हैं।

ई—निविदा—सूचना सं0 61/2021—22

निविदा कार्य :	1	बीकानेर नगर निगम के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में (आर0यू0आई0डी0पी0, अन्य विभागों की सड़क छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत/पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ0आर0सी0 कार्य)
जिलिहा की करण	2	बीकानेर नगर निगम के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में (अमृत योजना, आर0यू0आई0डी0पी0, अन्य विभागों की सड़क छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत / पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ0आर0सी0 कार्य)
निविदा की कुल लागत ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	÷	80.00लाख
	:	२०.१० २०२१ 09.30 बजे से 29/10/40२1 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की दारीख		२० 10 20 २१ 09.30 बजे से २ ९ 10 र०२) 18:00 बजे तक
आंनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	ा।। (७२) को १७.०० बजे

निविदा शर्ते

- 1. नगर निगम बीकानेर एवं स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म अन्य विभागों के ''एए'' अथवा ''ए'' श्रेणी के संवेदक निविदा में भाग ले सकते है।
- 2. निविदा प्रपत्रों हेतु डाउनलोड की अवधि .**३**०(.l०) रेलरे) 09.30 बजे से ..२९(१०/२०२) 18:00 बजे तक होगी।
- 4. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
 - (अ) निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
 - (ब) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया में प्रीबीड मीटिंग का प्रावधान नहीं है।
- 5. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग कार्यालय में संवेदक द्वारा 20 10 रेक्री 09.30 बजे से 20 10 रेक्री 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्त्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्त्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
- 6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्त्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है आरपीडब्ल्यू ए—100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।
- 8. 10 लाख या अधिक लागत के कार्यों की Defect Liability Period 05 वर्ष का होगा।
- 9. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :--

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
10 लाख तक	500/-
10 लाख से अधिक	1000/-

10. प्रासेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है :--

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	Managing Director, RISL, Jaipur
50 लाख तक	500 / -
50 लाख से अधिक	1000 / -

- 11. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन ही होगी।
- 12. वित्त(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी—एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के क्रम में बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अतः संवेदको / फर्मी द्वारा बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर 50 / रूपये के राजस्थान राज्य के स्टाम्प पर संलग्न घोषणा पत्र निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है। जिसे निगम कार्यालय में निविदा स्वीकृत पश्चात् जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
- 13. निविदा हेतु ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE ऑप्शन पर होगा।

ya

- 14. ऑनलाईन भुगतान हेतु संवेदक को नगर निर्गम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE पर भुगतान किये जाने के पश्चात् भुगतान रसीद, फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं फर्म का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 15. ऑनलाईन पेमेंट भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 16. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क Non Refundable होगा।
- 17. निर्धारित शुल्क से कम भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 18. किसी टंकणीय त्रुटि के कारण की के जी अनुसूची की विभिन्न इकाई की दरे सम्बंधित एस0ओ0आर0 / बी0एस0आर0 की दरें मानी जावेगी।
- 19. निविदा प्रपत्र 02 कवर में होगा। यदि संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा अपलोड करते समय वांछित प्रपत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 20. ई- टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :--
 - अ इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
 - ब निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रिजस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्रापत कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - स— निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - द— ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 3 के अनुसार खोली जायेगी।
 - य इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा करानें से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
 - र कीई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - ल टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियो को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

शपथ-पत्र

Form of Bid-Securing Declaration

Date	
Bid N	
	native No. :
To:	•

We, th	ne undersigned, declare that:
We u	nderstand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.
We ac	scept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, following cases, namely:-
(a)	when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b)	when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c)	when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d)	when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e)	if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.
undert	ition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process aken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof tired to be forfeited by procuring entity.
We un	derstand this Bid Securing Declaration shall expire if:-
(i) (ii)	we are not the successful Bidder; the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) (iv) (v)	thirty days after the expiration of our Bid. the cancellation of the procurement process; or the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.
Signed	
Name	·
In the	capacity of :
Duly a	uthorized to sign the bid for and on behalf of :
Dated	on day of

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

शपथग्रहिता

NIT No. 61 Work No. 01 <u>Municipal Corporation, Bikaner.</u>

Name of Work :- बीकानेर नगर निगम के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में (आर०यू०आई०डी०पी०, अन्य विभागों की सड़क को छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत/पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ०आर०सी० कार्य)

Name of Contractor:-	र राज्य नरमत् पंच मरम्मत इत्यादि का कार्य। (ऐ०आर०सी० व
Date of Sales : 20 10 2021	***************************************

	Date of Sales: 20.10.2021 to 29.10.2021		
	Date of Sales : 20 10 202;		
	5 20.10.2021 to 20 10 2021		
	Tanda G 27.10.2021	Data of O	
	Tender Cost Rs 4000000/-	Date of Opening: 01.11.2021	
		Spening . 01.11.2021	
	Farnest M. G.	Farnest Man D	
- 7	Burnest Woney Cheque D. C. S.	Earnest Money Rs. Stamp	
- 1	Earnest Money Cheque Draft No.:	-y res. Stamp	
- 1	Earnest Money M.C.B. Receipt No. :	Date:	
- 1	The Recoint M.	Date:	Tender Fess :1000/-
- 1	Edward B. Receipt No.		1 chaci ress:1000/-
- 1	Earnest Fees M.C.B. Receipt No.:	Date ·	- 00/
	W.C.B. Receipt No.	Date.	
		Date ·	
		ate.	
		!! C !! ~	
		"C" Salata	

"G" Schdule

S. No.	Item	Item	<u>Schdule</u>				
1.	2.9.2		Qty	/.	Unit		
	2.7.2	Dismantling of flexible pavements and dis of dismantled materials up to a lead of 500			Unit	Rate	Amount
		of dismantled materials up to a lead of 50 m as directed by Engineer, Grapular C	posal 01.0	0	Cum	206.00	- Januari
2.	4.2	as directed by Engineer. Granular Course	etres	1	- G111	206.00	206.00
	4.2.1	Earth work in excavation for roadway, inclutrimming bottom and side clarations.	1.				
	1.2.1	trimming bottom and side slopes in accord	ding 01.00	0	Cum	145.60	
		with requirement of line, grades and coections, including disposed of	ance		din	145.00	145.00
		sections, including disposal of surplus mater with all lift and lead unto 1000.	cross	- 1			
1 1		with all lift and lead upto 1000 metre as MoRT&H specification clause 2011.	eriai				
		MoRT&H specification clause 301. In all typesoil c.	per				
3.	2.4.2	Dia ii	6 01				
		Dismantling of existing structures like culve bridges, retaining walls CC	wto.				
- 1	1	bridges, retaining walls, CC road and ot structure comprising of many and ot	rts, 01.00	Cı	ım 🔝 🔏	27.00	
		structure comprising of masonry, cem-	ent		4	27.00	427.00
-		concrete, wood work, steel work, including Te and scaffolding wherever possess.	OII				
		and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material dispessed of the scale of th	he				8
	*	dismantled material, disposal of unserviceal material and stacking the saminable of unserviceal	le l	1			
		material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 materials.	al		1		
		with all lifts and lead of 50 metres as directed to Engineer.	NV			-	
4.	1.2	Carriage of motorida	's		1		
- 1	1.1.2	Carriage of materials by manual labour includir oading, unloading and stacking for leading	19 01.00				
5.	F	m Sand bazzi balloct I lead less than 0	5	Cun	13.	2.00	122.00
J.	7.10.2 P	roviding and fiving of	1				132.00
- 1	ti	les of desired shape of M 30 grade manufactured om fully computerized automatic activities.	g 01.00	Sqm			
	li vi	om fully computerized automatic stationery hydraulic pressed machine and fully	d	Sqiii	578	3.00	578.00
-	aı	ebro pressed machine and fully computerized automatic batching plant of class A1/A2	2	1			
	67	17:2001 The CC int of class AT/AZ as per BS	s 1				
	On	average 50mm thirty average blocks be laid	1	*			
1	101	It is to be filled with a course sand and the	J				
	COI	mpacted sub-base as 1.6 said. Laying procedure on					
	The	ecuted as per the instruction of Engineer incharge.					
	con	e rates to be inclusive of all lead & Lifts etc.		1			
	Stre	ngth, abrasion and to the rensile splitting					
5.	671	7:2001 Grey coment and fload etc. as per BS					
	7.3.1 Pro	viding, laying and and linek. (I- Shape)					
	base	by providing coarse graded Material (Table 2), spreading in uniform	01.00	Cum	-		
	400	-2), spreading in a care Material (Table	-01359 2	Cuin	984.0	0	984.00
	grac	ler on prepared surface, mixing BY MIX IN					
	PLA	CE METHOD					
-	com	pacting with vibratory roller to achieve the				1	1
	desir	red density, complete as per MoRT&H		1			1
1	speci	fication clause - 401 including all material,					
	labou	ir, machinery, lighting, guarding and	- 1				
12	main	tenance of diversion. Grading I Material.					1
112	Filling	g of Pot- holes and patch repairs with Built up					
,		1-22\ G Schdule 2021-22	01.00	Sqm	238.00		
/pain							238.00

spring Growth in the layers with 35-22-farms are of the treatment of the control	1	1				-	
material, transming of completed excussion to provide firm whether lates, cleaning of strine, printing of tack code in the state and base of excussion as per classes. Whether the printing of the state and base of excussions as per classes. Whether complete using the provided in a per classes. 100, compounding with 84 to terms power roller, transming and finalising the surface complete using them to provide the provided by the			Spray Grout in two layers with 53-22.4mm size of	M			
firm vertical fixes, cleaning of surface, paining of uack coat on the area and base of execution as per clause 30%, back filling the part holes with hat historians are power roller, termining and finalising the surface to forer a smooth continuous surface confidence of forer a smooth continuous surface confidence of forer a smooth continuous surface confidence of forers and the surface of forers and applying task coat on the prepared surface with historians rangitus as age 15.885 and approved quarticy & C2 Laptorian with the help of sprays of fixed on historians foreign and maintenance of the surface with historians foreign and maintenance of the surface with historians foreign and maintenance of the surface with historians the surface of the surface with historians foreign and maintenance of the surface with historians the surface of the surface			aggregate upto /5mm depth and removal of all failed			ž	
sout or the sides and hose of excavation as per clauses 505. Dock filling the prot hole 500, compacting with 8-10 names matchi as per clause 500, compacting with 8-10 names form a smooth continuous sarrier complete, using Billinam Volgende 20 as per clause 500, 500 & 20042, of MoRT&R& specification including all material, labour, markiness, lughting, guarding and maintenance of elecision. 8. 5.3 Sanitaria with billinam conditions in per 15 8.887 and approved quality @ 20 Eyespen with the belt of spread approved quality @ 20 Eyespen with the belt of spread set fitted on bitumen Containor (posier) after cleaning the surface with billinam conditions and compacting stored fitted maintenance of diversion. 9. 7.60 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadian specification including spreading in uniform histories; hand postking, rulling with power roller 8-10 names, in sugges to prove grade and camber, applying and good and specific sizes of the specification including spreading in uniform, thickness; hand postking, rulling with power roller 8-10 names, in sugges to proveg grade and camber, applying and good and specific sizes are per Table 400-7 to Water Bound Macadian specification including spreading and compacting to all material labour, machiney, lighting, guarding and materials below, maching the specification including spreading and compacting some aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadian specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rulling with power ruller 8-10 runnes, in stages in proper grade and camber, applying and all material, blabour, machinery, lighting, guarding and material, light-sizes as per fable 400-7 to Water Bound Macadian specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rulling with power ruller 8-10 runnes, in stages in proper grade and entire proper grade grad							
500. Bock filling die pol holes with hot hismanium maximal aper chause 506, compacting with \$10 teams power roller, trimming and limihing the surface to Blaumen VS-grand \$0 as per tailors, and the surface of the surface with branches canadism as per \$1.5 885 and surface of the surface with branches canadism is per \$1.5 885 and surface with branches canadism is per \$1.5 885 and surface with branches canadism is per \$1.5 885 and surface with branches canadism is per \$1.5 885 and surface with branches canadism is per \$1.5 885 and surface with branches canadism and uninternance of the surface with brunes of surface with the surface with brunes are surface of the surface with brunes are surface of the surface with brunes are surface and compressed at to receive blauminous teachinent complete as per clause \$0.50 at More \$1.6 street series and finally during with old guring guarding and compacting of diversion. 9. 7.60 Providing laying, spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with power rollers \$1.0 comes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Tolle 400-8) braining materials to fill up the intersylices of course aggregates, wide ring (with water browser) and compacting to required density, making encessary carried bund to protect edges as per clause 404 of MoREAL specification including spreading in uniform thickness, hand pecking, rolling with power roller 400-s as per surface and compacting to required density, making and compacting store aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Ware Bound Materials specification including spreading in uniform thickness, hand pecking, rolling with power roller \$1.0 somes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of secreting (Table 400-8). Building materials to fill up the interstices of course aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making and compacting and mate		-	coat on the sides and base of everytein as not clause				
moteral as per clause 506, compacing with 8-10 ames power roller, tramming and finishing the strikes to flort a smooth continuous partice complete using the continuous partices complete using the continuous particles of the continuous particles and							
power roller, trianning and finishing the surface to form a smooth continuous surface complete using Burner VC-grade 30 say per clause 503, 506 & 3004.2 should be continuous to the continuous surface of diversion. 8. 8.3 Providing and applying tack coat on the prepared of diversion. 9. Providing and applying tack coat on the prepared surface verb bitumes creation as per IS: 8857 and approved quality 60 20 kg/sgs/surface with bitumes creation as per IS: 8857 and approved quality 60 to 15 gs/sgs with the kip of 15 gs/sgs and compressed at the receive bitaminous treatment complete as per Calaba to receive bitaminous treatment complete as per Calaba 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 omns, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of servering (Table 400-8) binding materials to fill up the intensices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making and materiallabour, machinery, lighting, guarding and material tool of diversion Complete, Crusher broken - Grade-III (63-45mm) and compacting to required density, making a stone aggregates of specific sizes as per Table 400-8; binding materials to fill up the interestices of coarse aggregates of specific grade crushes and provide and brooming required density, making necessary certains to fill up the interestices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary certains build on sincepping anomenous before a large coarse, exception of specific pathod			material as per clause 506, compacting with \$ 10 tappa				
form a smooth continuous surface complete using Bittener Vergade 30 use per clauses 503, 506 a. 50042 of MoRTAEH specification including all material, of developing the state out on the prepared surface with bittener emulsion as per 18, 883 and augmented quality 20 2. kg/spur with the help of sprays self-titled on bittener emulsion as per 18, 883 and augmented quality 20 2. kg/spur with the help of sprays self-titled on bittener emulsion as per 18, 883 and augmented public self-titled public self-titled surface with browns or soft brushes and finally the surface with browns or soft brushes and finally the surface with browns or soft brushes and finally the surface with browns or soft brushes and finally the surface with browns or soft brushes and finally the surface with browns or soft brushes and finally the surface of diversion. 9			nower roller trimming and finishing the surface to				
Bituren VG-grade 30 as per clause 503, 566 & 3004 2 of MoREAR specification including all material, labour, machinery, lephing, guarding and maintenance of discretion. 8. 3 8. 3 8. 3 8. 3 8. 4 8. 5 8. 5 8. 6 8. 7 8. 7 8. 7 8. 7 8. 8 8. 8 8. 9 8. 8 8. 9							
of MoSTAEH specification including all material, labour, machinery, lighting quarting and maintenance of diversion. Providing and approved quality and C2 kg/sgm with the base 8887 and approved quality and C2 kg/sgm with the base 8887 and approved quality and C2 kg/sgm with the base 8887 and supproved quality and C2 kg/sgm with the base such detailing the surface with brooms or soft bracks and finally dusting with old gurny bags and compressed air to recover bituminous treatment complete as per clause 502 of MoSTAEH specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of the specific spe			Bitumen VG-grade 30 as per clause 503 506 & 3004 2				
Indicor, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversions			of MoRT&H specification including all material				
8 8.3 Providing and applying incic coat on the prepared surface with bitumen emission as per IS. 887 and approved againty @ 0.2 kg/gam with the help of spray the surface with browns or soft bitument of surface with browns or surface with su			labour, machinery, lighting, guarding and maintenance				
8 8.3 Providing and applying tack coat on the prepared surface with humans cancidion as per IEs 8887 and approved quality @ 0.2 kg/sqm with the help of sprays set titted no hymone Container (bestler) after chaning the surface with become or soft brushes and fittally disting with old gamry begand compressed are to see the containing the surface with become or soft brushes and fittally disting with old gamry begand compressed are to see the containing and metrical, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion or diversion. 9. 7.66 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadiam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rouling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the intersities of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting from coarsesy are arther bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-III (63-48mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadiam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in slages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interestices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earther bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22 amm). 11. 8.12.1 Providing alloying open guided permits caped 30mm thick (compacting and maintenance of diversion Complete Crusher blanch and privage permits and bayers							
surface with bitumen emulsion as per IS: 8887 and approved quality @ 0.2 kggsm with the help of spray set iffect on bitument. Contamer (boilers after cleaning the surface with bituments or soft brushes and family diotion, with old gentry logs and compressed are to see the content of the surface of the content of the con	8.	8.3		01.00	Sam	7.00	7.00
approved quality @ 0.2 kg/sqm with the help of sprays set fitted on butturne Constainter (boller) after cleaning the surface with brooms or soft brashes and fittally disting with old gumny bays and compressed art to receive bitummous treatment complete as per clause 502 of MoRT/RH specification including all material, of diversion. Providing laying, spreading and compacting stone auggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform discusses, hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stiges to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the intersities of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to proceed redges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-III (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the intersities of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken- Grade-III (153-22-d mm). 11. 8.12.1 Providing and brying specified guided crushed stone aggregate as better files 50-23, permote with binamess binder (guide with binamess binder (guide with binamess binder (guide with binames) binder (guide with binames) binder (guide with binames binder (guide with binames binder (guide with binames)				01.00	Sqiii	7.00	7.00
set fitted on bitumen Comainer (boilet) after cleaning the surface with browns or soft branches and finally disting with old gumy bags and compressed air to receive bituminous treatment complete as per clause 500 of MoRTRAT specification including all material, of diversions. It is a surface of surface of diversions of diversions of diversions and surface of the surface of diversions of diversions and the surface of the surface of diversions of diversions of diversions and packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and browning requisite type of screening (Table 400-8). By indiring materials to fill but the intervises of course aggregates whereing (with water browser) and compacting to requisite type of screening (Table 400-8). By indiring materials to fill but the intervises of course aggregates whereing (with water browser) and compacting to requisite type of screening (Table 400-8). By indiring spreading in aniform thickness, that a packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-III (63-45-mm). 10. 7.5.1 Servicing laying, spreading and compacting some aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in aniform thickness, hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and browning requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earther bound to protect edges as per clause 400 of MoRTRAF specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. 11. 8.12.1 Providing a labour, machinery in the second stage of the second with thinmions butter? (14) the second stage of the second with thinmions butter? (14) the second stage of the second with thinmions butter? (14) the							
the surface with brooms or soft brushes and finally dusting with old gumy bags and compressed are to receive bluminous treatment complete as per clause \$50 of MoNET&H specification including and maintenance of diversion. 9. 7.6 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of course aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthern bund to protect edges as per clause 404 of MoNET&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Completes. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7. Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tones, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates watering (with water browser) and compacting requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates and compacting to required density, making necessary cartine hund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material. Iabour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher browser) and compacting to required density, making necessary cartine hund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, labour, aggregate and bulbure in computered bet into labour propagate and propagate and propagate and propagate and propagate and propagate and propagate an			set fitted on bitumen Container (boiler) after cleaning				
dusting with old gamy bags and compressed air to receive bituminous treatment complete as per clause 502 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maniereance of diversion. Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tomes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary carriben bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Forded-1 (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including preading providing in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tomes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates with the providing and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-11 (fill 3-22.4 mm). 10. 8.12.1 Providing and immerials complete provided density, making necessary carties to much to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-11 (fill 3-22.4 mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded genuts camped and camberal by the provided and an applying premised and case of the provided and an analysis of the provided and applying premised and case of the provided and appl			the surface with brooms or soft brushes and finally				
9. 7.6 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tomes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Fadde-11 (63-48mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-8) binding requisite type of screening (Table 400-8) of Water Bound Macadam specification including pareding in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tones, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-11 (fill 32-22 dmm). 11. 8.12.1 Providing and imminenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-11 (fill 32-22 dmm) to the compacting of the application of material with FE loader, but nining of some aggregate and waterial source of anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-			dusting with old gunny bags and compressed air to				
10 10 10 10 10 10 10 10			receive bituminous treatment complete as per clause				
9 7.6 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary carthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRTAR HS specification including all material. Iabour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-III (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with power poller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRTAR HS, specification including all material, labour, machinery, lighting guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (63-22-4mm). 11. 8-12.1 Providing and tamignature of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (63-22-4mm). 12. Providing and bing gone graded results expend to though a competence of an anti-tirguing compound wherever sequired led in splant compacting to required density a per clause 404 of MoRTAR long and topic gone gone of specific density as per clause 404 of MoRTAR long and compacting to required led in splant compacting to required led in splant compacting and topic gone gone of an anti-tirguing compound wherever sequired led in splant on excelled grade crushed section and to the required level and grade, compacting and only the pro			502 of MoRT&H specification including all material,				
9. 7.6 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earther bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-11 (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion funding all materials to the property of the special propert			labour, machinery, lighting, guarding and maintenance				
stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400- 8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary carthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT/84 specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-III (63-45mm) Providing Isying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400- 8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT/84 specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (63-22.4mm). 11. 8-12.1 Providing mala injung song applied prante expect Jounn thick, compacting, on propued sariace in a single contrace as wearing, coarse, composed of specified graded crushed series of specified and grade, compacting, in enhance glored prante expect Jounn thick, compacted, on prepand sariace in a single contrace as wearing, coarse, composed of specified graded crushed series of maintening compound wherever required, inchanged graded prante expect glow and fashing to required level to achieve the desired level and grade, compacting, inchanged graded graded and common in decirons assoc control to the required level and grade, compacting amount wheeled roller 8-10 tonne expects; and fa							
stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400- 8) binding materials to fill up the interstices of course aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness: hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400- 8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.1.2.1 Providing and laying one guald prenix carpet 20nm fluck (compacted), on prepared surface in a single course in warring course, composed of specified graded erabels bear aggregate as per Table 500-23, prenixed with bituninous binder @ 14.140 kg/logan (including raded erabels bear aggregate as per Table 500-23, prenixed with bituninous binder @ 14.140 kg/logan (including cont) and included regulated erabels collected and grade, compacting and only the prenixed of the k court of the court of	9.	7.6	Providing laying, spreading and compacting	01.00	Cum	1320.00	1320.00
400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary carthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix capacit point mick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, compact of specified graded entable stone aggregate as per Table 500-27, premixed with binamions binder (i) the binamics of stone aggregate and binume in computerise the risk plant, transporting the maced materia by tippers to paver and laying with paver finisher filted with elections ensent control to the required density as per labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack costal 'Specification and maintenance of diversion with binamions binder greated parts as per labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost			stone aggregates of specific sizes as per Table				1520.00
including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded praints capet 20mm thick course, composed of specific graded crushed stone aggregate as per falled 90-23, premised with binaminus binder @ 14.60 kg/ltsqn (including cost of anti-stripping compound wherever required, including leading of material with F.E. loader, but mixing of stone aggregate and bitunen in computerside forms in the required level to achieve the desired density as per clause 513 in 6 MeRT&H intemporting the make material by tippess to pover and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control and colling with paver finisher with bettermine sensor control and colling with paver finisher with bettermine sensor control and colling with paver finisher with electronic sensor control and colling with pave			400-7 to Water Bound Macadam specification				
packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of course aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 812.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in single course as warning course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with humanous binder @ 14.00 kg/10sym (including cost of anti-stropping compound wherever required), including loading of material visib F.E. loader, but mixing of stone aggregate and bitmen in expectation in medical material visib F.E. loader, but mixing of stone aggregate and bitmen in expectations in the compacting and maintenance of diversion to the required level to achieve the desired density as per clause 513 in 6 MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion to the calculation of fine aggregate 606 cant 10 deversion but evaluating c			including spreading in uniform thickness; hand				
stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and broming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery. lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded prems campet Jonn thick (companies), on prepare graded prems campet Jonn thick (companies), on prepared graded prems campet Jonn thick (companies) on prepared graded prems campet Jonn thick (companies), on prepared graded prems campet Jonn thick (companies) on prepared graded prems campet							
brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (G3-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (532-24mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix captet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crashed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.66 kg/f0sim (including loading of material with FE. computerised bott into value, transfuging compound wherever required, including loading of miterial with FE. computerised bott into value, transfuging compound wherever required. Noting loading and material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding oat of article and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 founce capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding oat of article crush countries and provided to the							
8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRTAH specification including and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRTAH specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (33-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premis carpet 20mm thick course, composed of specified graded elections as wearing as per Table 500-23, premixed with hitminions binder @ 1406 kg/dogm (including cost of anti-straping) compound wherever requiredl, including landing of material with F.E. loader, hot mixing of some aggregate and bitimen in computerised hort max plant, transporting the mixed material by toppers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled relier 8-10 frome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRTAH specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion that excluding cost of ancient with selection was all count 10 sym premised seal cost with the complete as per clause 511 of MoRTAH procedured for seal cost of the cost of seal cost of the cost of seal cost of the cost of seal cost of such seal cost			brooming requisite type of screening (Table 400-				
coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken. Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22-4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on perpaned surface in a single course as wearing course, composed of specified graded erished stone aggregate as per Table 500-25, premised with bintimious binder @ 14-00 kg/0sqn (including cost of anti-stripping compound function) and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of fact cours seal cost. With Ditumen VC-grade 30. 12. **8.15.1 Providing and applying permitsned seal cost. Type "B' causes of the application of the eagering level and grade, configured level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&Hs specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of fact cours seal cost. W			8) hinding materials to fill up the interctices of				
and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying one graded premis cappet 20pm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded errashed stone aggregate as per Table 500-23, premised with bituninous binder @ 14.60 kg/10sm/ (including) cost of an including loading of material with F.E. loader, but mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with power fusible fittied with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled relies 1-0 tome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, gearding and maintenance of division of the specification including and laying with power rollers. All to tome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification finishing to laying with power rollers. All tome completes appread 50 fourn 10 spin							
necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken. Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller-8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premis capped 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premised with bituminous binder @ 1406 kg/10sm (including cost of ani-stripping compound wherever required), including loading of material with FE. loader, but mixing of stone aggregate and bitumen in compacterised but inx plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher firthed with electronic sensor control to the required level and grade, finishing to required test of control and material material, labour, machinery, lighting, grading and material material, labour, machinery, lighting, grading and material with FE. loader, but mixing to required test of control and material with feet or companies of the control of the							
clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, remixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sm (including loading of material with E loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tone capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of task coal/ seal coat. Type 18-comprising of thin application of fine aggregate 0.06 curl 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/10 Sqm (including cost of anti-stripping ompound wherever required, luging with power rollers 8-10 tome complete laying with power rollers 8-10 tome complete as per clause 513 of			and compacting to required density, making				
all material.labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded resulted sione aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 1400 kg/f 05qm (including cost of mis-stripping compound winders required), including loading of material with F.E. compacting smooth wheeled roller 8-10 tone capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat. Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.0 focus of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat. Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.0 focus of 10 squ premix with bitumen binder @ 6.8 kg/l 0 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with power rollers 10 to more complete as per clause 513 of			necessary earthen bund to protect edges as per				
and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, lot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher litted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tone capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 mone capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 mone capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 mone capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 mone capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 mone capacity and finishing to required level and grade, compacting with paver finisher with beteronic sensor control to the required level and grade, com							
broken - Grade-II (63-45mm) 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituninous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with FE loader, bot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bot mix plant, transporting the mixed material by toppers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity) and finishing to required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity) and finishing to required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity) and finishing to required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity) and finishing to required level and grade, compacting smooth wheelder foller 8-10 (none capacity) and smooth of the comprising of this application of fine aggregate 0.06 cmm/1							
10. 7.5.4 Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix capted 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bitaminous binder @ 14.00 kg/logm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computersed hot must plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 come capacity and finishing to required level and grade, compacting of this amplication of fine aggregate 0.06 cum/10 sqm premix with		¥	and maintenance of diversion Complete. Crusher				
stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400- 8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and haying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/lOsqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, bot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bot mix plant, ransporting the mixed material by tippers to paver and laying with power finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 rome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of fack coat seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" compremix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required laying with power roller-8-10 tonne complete as per clauses 513 of			broken - Grade-II (63-45mm)				
stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/l0smm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of anti-stripping compound wherever required, including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher litted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat seal coat. With Bitunes Vicegrade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitunes binder @ 6.8 Kg/l 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of	10.	7.5.4	Providing laying, spreading and compacting	01.00	Cum	1400.00	1400.00
400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on peparad surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10spm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled relies 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of		ly.					1 100.00
including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). Providing and laying open graded premis carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and manitenance of diversion but excluding cost of tack coat' seal coat. With Bitumen WG-grade 30. Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of MoRT&H specification including all material, abour, machinery, lighting, guarding and manitenance of diversion but excluding cost of fack coat' seal coat. With Bitumen WG-grade 30.			400-7 to Water Bound Macadam specification	<i>></i>			
packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/l0sqm (including cost of anii-stripping compound wherever required), including loading of material with E.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of task coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anii-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tome complete as per clause 513 of			including spreading in uniform thickness; hand				, .
stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery. lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/losqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bot this plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fifted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat's eacl coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix capte 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bottom kip plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of fack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tone complete as per clause 513 of							
8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/lOsqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher filted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with paver finisher some complete as per clause 513 of			brooming requisite type of screening (Toble 400				
coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/l0sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tome capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with power rollers-8-10 tome complete as per clause 513 of			8) hinding meterials to fill up the intenstices of				
and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.66 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power rollers.8-10 tonne complete as per clause 513 of			approximate materials to find up the interstices of		-		,
necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised bot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power frollers.8-10 tonne complete as per clause 513 of							
all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT-RM specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen bindee @ 6.8 kg/10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). 11. 8.12.1 Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with power finisher with electronic sensor control and rolling with power roller. 8-10 tonne complete as per clause 513 of							
Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm). Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with power finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller. 8-10 tonne complete as per clause 513 of			guarding and maintenance of diversion Complete				
(compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of			Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm).				4
(compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of	11.	8.12.1		01.00	Sam	94 00	94.00
as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with power finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of						,	J 1.00
14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of							
loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of							
computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of			loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in				
electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of			computerised hot mix plant, transporting the mixed material by				
compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of			uppers to paver and laying with paver finisher fitted with				
finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of			compacting smooth wheeled roller 8-10 toppe capacity and				
clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of			finishing to required level to achieve the desired density as per				
diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30. 12. 8.15.1 Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of			clause 511 of MoRT&H specification including all material,				*
Bitumen VG-grade 30. Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of							
comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of	12	< 8 15 1		01.00	0	20.00	
sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of	12.	0.13.1	comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10	01.00	Sqm	38.00	38.00
cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of		1.7	sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including				
with power roller-8-10 tonne complete as per clause 513 of		\ \	cost of anti-stripping compound wherever required) laying				1901
MoRT&H specification including all material, labour,							
morrori specification metating all material, labour,			MORT&H specification including all metasial lab				
					L		

		machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. 8.15.1 With Bitumen VG-grade 30.				
13.	PWD Road BSR-2016 5.7	Providing, laying and rolling of open-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates either using penetration grade bitumen or emulsion to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either type A or Type B or Type C as per MoRTH Specification Clause 510. Case - I by Manual Means Bitumen (VG-30)	01.00	Sqm	90.00	90.00
14.	5.9	Providing and laying seal coat sealing the voids in abituminous surface laid to the specified levels, grade and cross fall using TypeA, TypeB and Type C as per MoRTH Specification Clause 511 By Manual Means - Case II Type B Bitumen (VG-30)	01.00	Sqm	29.00	29.00
15.	4.4	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pit with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting by vibratory	01.00	Cum	163.00	163.00
	,	roller 8-10 tonne to meet requirement of table 300-2 including cost of compensation for earth taken from private land complete as per MoRT&H specification clause 305. (Lead taken upto 5 km)				
16.	9.3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over aprepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, Cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days,	01.00	Cum	2300.00	2300.00
		mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and aintenance of diversion.				
17.	21.1.2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level: 1:1.5:3 (1 Cement: 1.5 coarse sand: 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	01.00	Cum	4700.00	4700.00
18.	9.11	Providing and fixing of 60mm thick precast cement concrete interlocking paver block casted with rubber moulds in approved reflective colour and design having minimun compressive strength of 300 kg/ sq cm. The CC paving blocks be laid on average 50mm thick bed of coarse sand and the joint is to be filled with fine sand. Laying procedure on compacted subbase as defined. Complete job is to be executed as per the instruction of Engineer incharge. The rates to be inclusive of all lead & Lifts etc. complete as per specifications	01.00	Sqm	641.00	641.00
		Total				13492.00

I/We Tendering above work @	above/below "G" Schedule.
Signature of Tendering Contractor	·······

Municipal Corporation, Bikaner.

Name of Work :- बीकानेर नगर निगम के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में (अमृत योजना, आर०यू०आई०डी०पी०, अन्य विभागों की सड़क को छोड़कर) विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत/पेच मरम्मत इत्यादि का कार्य।

Name of Contractor :-	
-----------------------	--


Date of Sales: 20.10.2021 to 29.10.2021	Date of Opening: 01.11.2021	
Tender Cost Rs 4000000/-	Earnest Money Rs. Stamp	Tender Fess :1000/-
Earnest Money Cheque Draft No.:	Date:	
Earnest Money M.C.B. Receipt No.:	Date :	
Earnest Fees M.C.B. Receipt No.:	Date :	2

"G" Schdule

S. No.	Item Code	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	2.9.2	Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials up to a lead of 50 metres as directed by Engineer. Granular Course	01.00	Cum	206.00	206.00
2.	4.2 4.2.1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil c.	01.00	Cum	145.00	145.00
3.	2.4.2	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls, CC road and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable	01.00	Cum	427.00	427.00
	,	material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 metres as directed by Engineer.				
4.	1.2	Carriage of materials by manual labour including loading, unloading and stacking for lead less than 0.5 Km Sand, bazri, ballast, kankar.	01.00	Cum	132.00	132.00
5.	9.10.2	Providing and fixing of precast concrete interlocking tiles of desired shape of M 30 grade manufactured from fully computerized automatic stationery hydraulic viebro pressed machine and fully computerized automatic batching plant of class A1/A2 as per BS 6717:2001. The CC interlocking paving blocks be laid on average 50mm. thick bed of coarse sand and the joint is to be filled with fine sand. Laying procedure on compacted sub-base as defined. Complete job is to be executed as per the instruction of Engineer incharge. The rates to be inclusive of all lead & Lifts etc. complete as per specifications. Tensile splitting strength, abrasion and braking load etc. as per BS 6717:2001, Grey cement. 80mm thick. (I- Shape)	01.00	Sqm	578.00	, 578.00
6.	7.3.1	Providing, laying and spreading of granular subbase by providing coarse graded Material (Table 400-2), spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing BY MIX IN PLACE METHOD with rotavator at OMC, and compacting with vibratory roller to achieve the desired density, complete as per MoRT&H specification clause - 401 including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. Grading I Material.	01.00	Cum	984.00	984.00
7.	12.1	Filling of Pot- holes and patch repairs with Built up	01.00	Sqm	238.00	238.00

		6 6				
		Spray Grout in two layers with 53-22.4mm size of aggregate upto 75mm depth and removal of all failed material, trimming of completed excavation to provide firm vertical faces, cleaning of surface, painting of tack coat on the sides and base of excavation as per clause 503, back filling the pot holes with hot bituminous material as per clause 506, compacting with 8-10 tonne power roller, trimming and finishing the surface to form a smooth continuous surface complete using Bitumen VG-grade 30 as per clause 503, 506 & 3004.2 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	,			
8.	8.3	Providing and applying tack coat on the prepared surface with bitumen emulsion as per IS: 8887 and approved quality @ 0.2 kg/sqm with the help of spray set fitted on bitumen Container (boiler) after cleaning the surface with brooms or soft brushes and finally dusting with old gunny bags and compressed air to receive bituminous treatment complete as per clause 502 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	01.00	Sqm	7.00	7.00
9.	7.6	Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm)	01.00	Cum	1320.00	1320.00
10.	7.5.4	Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm).	01.00	Cum	1400.00	1400.00
11.	8.12.1	Providing and laying open graded premix carpet 20mm thick (compacted), on prepared surface in a single course as wearing course, composed of specified graded crushed stone aggregate as per Table 500-23, premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/10sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required), including loading of material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate and bitumen in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver and laying with paver finisher fitted with electronic sensor control to the required level and grade, compacting smooth wheeled roller 8-10 tonne capacity and finishing to required level to achieve the desired density as per clause 511 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat. With Bitumen VG-grade 30.	01.00	Sqm	94.00	94.00
12.	×8.15.1	Providing and applying premixed seal coat Type "B" comprising of thin application of fine aggregate 0.06 cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/ 10 Sqm (including cost of anti-stripping compound wherever required) laying with paver finisher with electronic sensor control and rolling with power roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of MoRT&H specification including all material, labour,	01.00	Sqm	38.00	38.00

		machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. 8.15.1 With Bitumen VG-grade 30.	A STATE OF THE STA			
13.	PWD Road BSR-2016 5.7	Providing, laying and rolling of open-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates either using penetration grade bitumen or emulsion to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either type A or Type B or Type C as per MoRTH Specification Clause 510. Case - 1 by Manual Means Bitumen (VG-30)	01.00	Sqm	90.00	90.00
14.	5.9	Providing and laying seal coat sealing the voids in abituminous surface laid to the specified levels, grade and cross fall using TypeA, TypeB and Type C as per MoRTH Specification Clause 511 By Manual Means - Case II Type B Bitumen (VG-30)	01.00	Sqm	29.00	29.00
15,	4.4	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pit with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting by vibratory roller 8-10 tonne to meet requirement of table 300-2 including cost of compensation for earth taken from private land complete as per MoRT&H specification clause 305. (Lead taken upto 5 km)	01.00	Cum	163.00	163.00
16.	9.3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over aprepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1. Cement content not to be a specified to be a specified to be subject to be seen to be subject to the s	01.00	Cum	2300.00	2300.00



13.	PWD Road BSR-2016	8.15.1 With Bitumen VG-grade 30. Providing, laying and rolling of open-graded	01.00			
	5.7	premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates either using penetration grade bitumen or emulsion to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either type A or Type B or Type C as per MoRTH Specification Clause 510. Case - I by Manual Means Bitumen (VG-30)	01.00	Sqm	90.00	90.00
14.	5.9	Providing and laying seal coat sealing the voids in abituminous surface laid to the specified levels, grade and cross fall using TypeA, TypeB and Type C as per MoRTH Specification Clause 511 By Manual Means - Case II Type B Bitumen (VG-30)	01.00	Sqm	29.00	29.00
15.	4 ,4	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pit with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting by vibratory roller 8-10 tonne to meet requirement of table 300-2 including cost of compensation for earth taken from private land complete as per MoRT&H specification clause 305. (Lead taken upto 5 km)	01.00	Cum	163.00	163.00
16.	9.3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over aprepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, Cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and aintenance of diversion.	01.00	Cum	2300.00	2300.00
17.	21.1 21.1.2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level: 1:1.5:3 (1 Cement: 1.5 coarse sand: 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	01.00	Cum	4700.00	4700.00
18.	9.11	Providing and fixing of 60mm thick precast cement concrete interlocking paver block casted with rubber moulds in approved reflective colour and design having minimun compressive strength of 300 kg/ sq cm. The CC paving blocks be laid on average 50mm thick bed of coarse sand and the joint is to be filled with fine sand. Laying procedure on compacted subbase as defined. Complete job is to be executed as per the instruction of Engineer incharge. The rates to be inclusive of all lead & Lifts etc. complete as per specifications	01.00	Sqm	641.00	641.00
		Total Up to Rs. 40.00 Lacs				13492.00

I/We Tendering above work @	. above/below "G" Schedule.
Signature of Tendering Contractor	